



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 1982/श्रावण 9, 1904

No. 231]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 1982/SRAVANA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्र संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

सं. 188/82-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1982

सा. का. नि. 514(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क  
अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1)  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो  
जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सर-  
कार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं को  
जो नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, दिल्लिगुणित  
करती हैं :—

अनुसूची

1. सं. 259-सीमाशुल्क, तारीख 3 दिसम्बर, 1981
2. सं. 260-सीमाशुल्क, तारीख 3 दिसम्बर, 1981
3. सं. 261-सीमाशुल्क, तारीख 3 दिसम्बर, 1981

[फा. सं. 355/86/82-सीमाशुल्क-1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

No. 188/82-CUSTOMS

New Delhi, the 31st July, 1982

G.S.R. 514(E).—In exercise of the powers conferred by  
sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52  
of 1962), the Central Government, being satisfied that it  
is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds  
the notifications of the Government of India in the Ministry  
of Finance (Department of Revenue) specified in the Schedule  
below :—

SCHEDULE

1. No. 259—Customs, dated the 3rd December, 1981.
2. No. 260—Customs, dated the 3rd December, 1981.
3. No. 261—Customs, dated the 3rd December, 1981.

[फा. सं. 355/86/82-Cus-1]

सं. 189/82-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 515(अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधि-  
नियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उप-धारा (4) क

साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 131/82-सीमाशुल्क तारीख 11 मई, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात—

- (अ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 76 के अन्तर्गत आने वाले ऐलुमिनियम को लागू नहीं होगी ;
- (ब) किसी बात का भारत सरकार की तत्कालीन प्रवृत्ति किसी अन्य अधिसूचना के अधीन इस अधिसूचना में निर्दिष्ट माल की बाबत सहायक सीमाशुल्क से दी गई छूट पर प्रभाव नहीं होगा ।”

[फा. सं. 355/86/82-सीमाशुल्क-1]

के. चन्द्रमौलि, अवसर सचिव

#### No. 189/82—CUSTOMS

**G.S.R. 515(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 131/82-Customs dated the 11th May, 1982, namely :—

In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that nothing contained in this notification shall :—

- (a) apply to aluminium falling within Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
- (b) affect the exemption granted under any other notification of the Government of India for the time being in force, from the auxiliary duty of customs in respect of the goods referred to in this notice.

[F. No. 355/86/82-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.